

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना-देवगाँव

पुलिस मुठभेड़ में चर्चित दुल्हा काण्ड का वांछित अभियुक्त शाह कमर पुलिस की गोली से घायल, अवैध तमंचा व कारतूस बरामद

आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं अवैध मादक पदार्थ / अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में दिनांक 09.04.2021 को प्रभारी स्वाट व प्रभारी निरीक्षक देवगाँव को विगत कुछ दिनों से इलेक्ट्रॉनिक एव धरातलीय/मुखबिरी सूचना प्राप्त हो रही थी कि वर्ष 2020 के फरवरी माह में दुल्हा हत्या काण्ड का अभियुक्त शाह कमर जो हाल ही में जेल से जमानत पर छूट कर आया है जो अपने दो अन्य साथियों के साथ किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। इस सूचना पर थाना देवगाँव पुलिस एवं स्वाट टीम संयुक्त रूप से सूचना के संवेदनशीलता को रखते हुए सम्भावित स्थानों पर तलाश करते हुए बनारपुर की तरफ जा रहे थे कि समय करीब 17.10 बजे एक बुलेट मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति सवार होकर बनारपुर से कोटा की तरफ जा रहे थे। जिनको पुलिस बल द्वारा रूकने का इशारा करने पर मोटरसाइकिल चालक पुलिस बल को देखकर मोटरसाइकिल को पीछे मोड़ कर भागना चाहा कि पुलिस की संयुक्त टीम के द्वारा पीछा करने पर अपने को घिरता देख कर मोटरसाइकिल रोक कर अपने हाथों में लिए हुए असलहो से पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से लक्ष्य कर ललकारते हुए फायर करने लगे। पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसुरक्षार्थ संतुलित फायर व आवश्यक बल का प्रयोग करते हुए समय करीब 17.25 बजे एक अभियुक्त को घायल अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य दो व्यक्ति सिवान का लाभ उठा कर भागने में सफल रहे। घायल अभियुक्त से नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम शाह कमर पुत्र हाजी सुहैल निवासी बनारपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ तथा फरार अभियुक्तों का नाम क्रमशः 1. तामिल पुत्र नासिम 2. आजाद पुत्र हासिब निवासी गण बनारपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ बताया। मौके पर जामा तलाशी से अभियुक्त के पास से एक अदद तमंचा 315 बोर, दो जिन्दा व तीन अदद खोखा कारतूस 315 बोर तथा एक अदद नोकिया मोबाईल बरामद हुआ। घायल अभियुक्त को इलाज हेतु सदह अस्पताल भेजा गया। उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०स० 62/2021 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर आवश्यक विधिक कार्यवाही नियमानुसार किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

शाह कमर पुत्र हाजी सुहैल निवासी बनारपुर थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०स० 62/2021 धारा 307 भादवि व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़

अपराधिक इतिहास

मु०अ०स० 36/2020 धारा 302/34 भादवि थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

मु०अ०स० 110/2020 धारा 3/25 आयुध अधि० थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1. एक अदद देशी तमंचा ,तीन अदद खोखा,दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर ।
2. एक अदद नोकिया मोबाईल

गिरफ्तार करने वाली टीम

1. प्र0नि0 एसपी सिंह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ।
2. स्वाट टीम प्रभारी निरीक्षक प्रशांत कुमार जनपद आजमगढ़ ।
3. उ0नि0 राजकुमार सिंह प्रभारी सर्विलांस जनपद आजमगढ़ ।
4. हे0का0 औरंगजेब स्वाट टीम जनपद आजमगढ़ ।
5. हे दिलीप पाठक स्वाट टीम जनपद आजमगढ़ ।
6. का0 उमेश यादव, सर्विलांस जनपद आजमगढ़ ।
7. का0 यशवन्त सिंह सर्विलांस जनपद आजमगढ़ ।
8. ओपी दिनेश यादव सर्विलांस जनपद आजमगढ़ ।
9. का0 राहुल शाह थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ।
10. का0 बृजेश कुमार थाना देवगाँव जनपद आजमगढ़ ।